

CIN: L15421MP2011PLC027287 GSTIN: 23AAGCP3350D1ZW

Parvati Sweetners And Power Limited

Registered Office: Hall No. 2. Shopping Complex, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk, Bhopal- 462003 (MP), Ph. No. 0755 - 4009254, Email: info@parvatisweetners.com

PSPL/SE/PC/2021-22

23rd October, 2021

Online filing at www.listing.bseindia.com

To,
The General Manager
DCS-CRD
BSE Ltd.
Rotunda Building
P.J. Tower, Dalal Street, Fort
Mumbai – 400001

Scrip Code: 541347

Symbol: PARVATI

ISIN: INE295Z01015

SUB: SUBMISSION OF PRESS CLIPPING RELATED TO NOTICE OF 07/2021-22 BOARD MEETING.

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A(A) and in compliance of Regulation 47(1)(a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 regarding publishing of intimation of notice of 07/2021-22 Board Meeting of the company to be held on Friday, 29th October, 2021 at 03:30 P.M. at the Registered Office of the Company at Hall No. 2. Shopping Complex, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk, Bhopal - 462003 (MP).

We herewith enclosed the newspaper advertisement published on 23rd October, 2021 in Business Standard English edition and Business Standard Hindi edition.

You are requested to please take on record our above said information for your reference and record.

Thanking you. Yours faithfully

For, Parvati Sweetners And Power Limited

POONAM CHOUKSEY MANAGING DIRECTOR DIN NO.:02110270

Encl. - a/a

Selvers and of the selvers and o

For Parvati Sweetners and Power Ltd.

Director/Authorised Signatory

PRINT .

Regd. Office: C-106, Hind Saurashtra Industrial Estate, Andheri-Kurla Road, Marol Naka, Andheri (East), Mumbai 400 059 W: www.controlprint.com | E-mail: companysecretary@controlprint.com | Tel: +91 22 28599065/ 66938900 EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2021

								Rs. In Lakhs except EPS)					
				Standalor	ie			Consolidated					
Sr.	I Particulars I	Quarter Ended		Half Year Ended Year Ended		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended			
No.											30.09.2021	30.09.2020	31.03.2021
I∟_		Unaudited	Unaudited	Unaudted	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudted	Unaudited	Unaudited	Audited
1 1	Total Income from Operations (Net)	6,285.36	5,462.25	5,308.89	11,747.61	8,822.47	20,420.67	6,293.31	5,462.25	5,308.89	11,755.56	8,822.47	20,420.67
2	Net Profit / (Loss) for the period Before Tax												
	(Before Exceptional Items)	1,187.31	856.19	896.97	2,043.50	1,500.10	3,708.57	1,173.07	856.09	891.20	2,029.16	1,486.74	3,674.46
3	Net Profit / (Loss) for the period Before Tax												
	(After Exceptional Items)	1,187.37	1,172.59	913.81	2,359.96	1,305.57	3,529.93	1,173.13	1,172.49	908.03	2,345.62	1,292.22	3,495.82
4	Net Profit / (Loss) for the period After Tax												
	(After Exceptional Items)	997.57	888.17	748.54	1,885.74	1,088.55	2,939.28	983.33	888.07	742.77	1,871.40	1,075.20	2,905.17
5	Total Comprehensive Income for the period												
	[Comprising Profit /(Loss) for the period and Other												
	Comprehensive Income(after tax)]	964.89	1,184.35	1,450.46	2,149.24	2,205.73	3,782.46	950.64	1,184.25	1,444.69	2,134.90	2,192.38	3,748.35
6	Equity Share Capital	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17	1,633.17
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as												
	shown in the Balance Sheet of previous year)						20,411.23						20,090.72
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)*												
ll l	Basic:	6.11*	5.44*	4.58*	11.55*	6.67*	18.00	6.02*	5.44*	4.55*	11.46*	6.58*	17.79
	Diluted :	6.11*	5.44*	4.58*	11.55*	6.67*	18.00	6.02*	5.44*	4.55*	11.46*	6.58*	17.79

*Not annualised

- The above is an extract of the financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid financial results are available on the website of the Company at www.controlprint.com and on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.
- The above financial results have been reviewd by the Audit committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on October 22, 2021

This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognise accounting practices and policies to the extent applicable.

For and on behalf of Board of Director **Control Print Limite**

Basant Kabra Managing Director

DIN 00176807

Place : Mumbai Date: October 22, 2021



मध्यांचल ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक एवं मध्यप्रदेश शासन का संयुक्त उपक्रम) दूरभाष क्र. 07582-236277, ई-मेल : Account@mgbank.co.in

हमारे बैंक के 13 जिलों सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, अशोक नगर, गुना, शिवपुरी , सतना , रीवा, सीधी एवं सिंगरौली की सभी शाखाओं एवं कार्यालयों हेतु हार्डवेयर उपकरण सर्वर, प्रिंटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर. (कियोस्क पासबुक प्रिंटर-वैकल्पिक) के वार्षिक रखरखाव अनुबंध/AMC हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं । इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाईट www.mabank.co.in पर उपलब्ध है । जिसे की इच्छक निविदाकर्ता डाउनलोड कर पर्णत: भरकर सीलबंद निविदा के साथ वेबसाईट में वर्णित पते पर प्रस्तत कर सकते हैं । निविदा आमंत्रण से सम्बंधित किसी भी परिवर्तन/ निरस्तीकरण की सचना वेबसाईट पर दी जावेगी । निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 05.11.2021 को सायं 05:00 बजे तक है। महाप्रबंधक (प्रशासन)



S. Name of Borrowers / Demand Notice Date

R.S.S. Nagar: Branch, C/18, HIG, Ravi Shankar Shukla Nagar, Indore-Shankar Shukla Nagar, Indore-452028 (M.P.)PH.: 0731-4060522, 2544337

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY RULE 8[1]

Description of the Mortgaged Property

Whereas, The Authorised Officer of Bank of Baroda under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the security interest (Enforcement) Rule, 2002 issued a demand notice to below mentioned borrowers/gurantors to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice. Having failed to pay the said sum with further interest within the said period, Notice is here by given to the borrowers, guarantors and the public in general that the authorised officer of the Bank of Baroda has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on the date mentioned against the name of borrower/gurantors. Any dealings with the said property shall be subject to the charge of Bank of Baroda for the amount mentioned against the borrower & interest there on. The borrowers attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

NU.	Guarantors	Possession Date		
01.	M/s Vinayak Cement Industries Proprietor Mrs. Niramal Agrawal Guarantor: Shri Anurag Agarwal S/o Late Shri Suresh Agarwal	05.04.2021 18.10.2021	omo. omargoo	1. Equitable Mortgage of Property situated at Shed No. 4 (1200 Sq.Ft.) & 5 (600 Sq.Ft.) Industrial Area, Rural Work Shed, Vill. Tillore, Indore(M.P.),in the name of Lessee M/s Vinayak Cement Industries Proprietor Smt. Nirmala Agarwal W/o Late Shri Suresh Agrawal, Admeasuring Area 1800 Sq. ft., Boundaries:-East: Open Land and road to Tincha Fall, West: Open Land and Well, North: Open Land and Shed No. 03, South: Open Land 2. Equitable Mortgage of Property situated at Shop NO. G-3, Plot No.09, "Satya Geeta Apartment" Scheme NO. 47, Sapna Sangeeta Road, Indore, in the name of Shri Anurag Agarwal S/o Late Shri Suresh Agarwal, Super built up Admeasuring Area 217 Sq. ft., Boundaries:- East: Shop No. G-4, West: Passage, North: Shop No. G-2, South: Stairs

Place : Indore, Date : 23.10.2021

Authorized Officer, Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ीटा **Bank of Baroda**

A R Road Branch: 13 Old Palasia A. B. Road, Indore (M.P.) Phone: 0731-2542023, 2433060

IMMOVABLE PROPERTY RULE 8[1]

Whereas, The Authorised Officer of Bank of Baroda under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of power conferred under section 13(2) read with rule 3 of the security interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notice to below mentioned borrowers to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice. Having failed to pay the said sum with further interest within the said period, Notice is here by given to the borrowers and the public in general that the authorised officer of the Bank of Baroda has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on the date mentioned against the name of borrowers. Any dealings with the said property shall be subject to the charge of Bank of Baroda for the amount mentioned against the borrower & interest there on. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Borrowers / Guarantors				
Pratibha Infratech Private Limited -Mrs. Sneha Agrawal (Director), Mr. Pradeep Kumar Goyal (Director), Mr. Maitreya Goyal (Director), Mrs. Sneha Agrawal (Guarantor),Mr. Pradeep Kumar Goyal (Guarantor), Mr. Yogesh Goyal (Guarantor)	05. 18.			
	-			

1.26.68.000 .05.2021 .10.2021

Description of the Mortgaged Property All that part and parcel of the property consisting of Land and Three storied building at House 75/1 and 75/2 axmiganj, Near A.B. Road, Ward No. 17, Opposite Gurudwara, Hospital Road, Guna (M.P.), Admeasuring: 3200 Sq.ft., Boundaries: East: Hospital Road, West: 7 Feet Nide gali, then Maheswari Mil, North: Road of Punjabi Mohalla, South: House of lahotiji, in the name of Late Smt. Pratibha Goyal W/o Late Shri Balkrishna Goyal (Legal Heirs Mr. Yogesh Goyal S/o Late Shri Balkrishna Goyal)

Place: Indore/Guna, Date: 23.10.2021

and Mr. Pradeen Goval S/o Late Shri Balkrishna Goval Authorized Officer, Bank of Baroda

PARVATI SWEETNERS AND POWER LIMITED CIN: L15421MP2011PLC027287 | GSTIN: 23AAGCP3350D1ZW Registered Office: Hall No. 2. Shopping Complex, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk, Bhopal- 462003 (MP), Ph. No.: 0755-4236666, 4009254 Email: info@parvatisweetners.com

NOTICE

NOTICE pursuant to Regulation 29(1) (a) read with Regulation 47(1) (a) of SEBI (LODR Regulations, 2015 is hereby given that the Meeting of the Board of directors of the mpany will be held on Friday, the 29th October, 2021 at 03:30 P.M. at the Registere Office of the Company to consider and approve the Standalone Un-Audited Quarterly and Half yearly Financial Results for the Quarter and Half Year ended on 30th September, 2021, along with other routine business.

For further details, please refer the web link-

https://parvatisweetners.co.in/ canteps://remails.co.in/ canteps://rema https://parvatisweetners.co.in/ & https://www.bseindia.com/stock-share_price/parvati

POONAM CHOUKSEY

DIN: 02110270

MANAGING DIRECTOR

Place: Bhopal Date: 22nd October, 2021

CÁPRI GLOBAL HOUSING FINANCE

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

CIN No.: U65990MH2006PLC161153

Regd. Office: 502, Tower A. Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 Website: www.caprihomeloans.com Tel. No.: +91 22 40888100 Fax No.: +91 22 40888160

Place: Mumbai

NOTICE is hereby given that the Company would be closing the branches at the following location(s): Sr. Name of Date of Closing Branch Unit No 110 & 111, First Floor, Megapolis 25.01.2022 Indore Shifting to new Square, 579, M.G. Road, Indore - 452001, Madhya Pradesh the city Indore Ground Floor, Sancheti Avenue, 3125, 25.01.2022 Shifting to new Sector E, Sudama Nagar, Near Gopur Square, Ring Road, Indore - 452009, Madhya Pradesh the city Office No. 10, 2nd Floor, Giriraj Heritage, Madhav Club Road, Teen Batti Square, Ujjair 25.01.2022 Shifting to new location within Near Dava Bazar, Ujjain - 456010, Madhya the city Office No. 8, 2nd Floor, Gurudatta Empire, Ratlam Shifting to new 135 New Road, Ratlam -457001, Madhya location within the city

> for Capri Global Housing Finance Limited (Harish Agrawal)

Company Secretary

Public Notice For E-Auction Cum Sale (Appendix - IV A) (Rule 8(6))

MUMBAI (PRINTED IN BHOPAL) | 23 OCTOBER 2021 Weekend Business Standard

No.98, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015, (Haryana) and Branch Office at: 102-103-Darshan Mall, 15/2 Race Course Road, OPP IDA Office, Indore Madhya Pradesh-452001, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002(hereinafte 'Act'). Whereas the Auhorized Office ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.bankeauctions.com.

Borrower(s) / Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)		Demand Notice Date and Amount	Date of Symbolic Possession	Secured Asset	Reserve Price	Date of Inspection of property						
		Rs.22,94,459/- (Rupees Twenty Two Lakh Ninety Four Thousand Four	Total Outstanding as on Date 20-Oct-2021	All that part and parcel of the property bearing Plot/Unit No. UE-27 B, "Gyansheela City", area admeasuring	(Rupees Twenty Lakh Only)	09-Nov-2021 1100 hrs - 1400 hrs EMD Last Date 12-Nov-2021 till 5 pm.						
	Saree Center	Bid Increase Amount: Rs. 25,000/- (Rupees Twenty	(Rupees Twenty Seven Lakh Eleven Thousand Four Hundred	69.67 Sq. Mtrs., Situated at	Earnest Money Deposit (EMD)	Date / Time of E-						

Mode of Payment: - All payment shall be made by demand draft in favour of "IIFL Home Finance Limited" payable at Gurugram or through RTGS/NEF The accounts details are as follows: a) Name of the account: IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank: - Standard Charted Bank Ltd., c) Account No:-53105066294, d) IFSC Code:-SCBL0036025 or through Payment Link: https://quickpay.iiflfinance.com,

No:-53105066294, d) IFSC Code:-SCBL0036025 or through Payment Link: https://quickpay.iifffinance.com,

Terms_and_Conditions:-1. For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com, well in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their 'Tender FORM' along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office.

2. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column 'Bid Increase Amount'. In case bid is placed in the last 5 minutes of the coising time of the coising time of the lastic placed for 5 minutes.

3. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the prescribed mode of payment.

4. The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property.

5. Bidders are advised to go through the website https: //bankeauctions.com and https://www.ifl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed terms and conditions of auctions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings.

6. For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID:- support@bankeauctions.com, Support Helpiline Numbers: @//2919811125/26/26, and any property related query Mr. Vivek Thapa@81105-vivek.thapa@iifl.com

7. Notice is hereby given to the Borrowerk, that in case they fail to collect the house shall enable as ease shall be sol

10.AO reserves the rights to postponercancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute tender/Auction, the decision of AO of I/FL-HFL will be final.

ender/Auction, the decision of AO of Int-In-PLAWIII be linal.

15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE RULE 9 SUB RULE (1) OF SARFAESI ACT, 2002

The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction, failing which he property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost Date: 23-October-2021 Place: Indore Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited

0

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED Registered & Corporate Office: 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-40001

Circle Office: - Capri Global Capital Limited 2nd Floor, 3B Pusa Road Rajendra Place, New Delhi-110005

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Capri Global Capital Limited (CGCL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having falled to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub –section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeemthe secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CGCL for an amount as mentioned herein under with

S. N.	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession				
1.	(Loan Account No. LNMEJAB000053074 of our Jabalpur Branch) Uma Shankar Sharma (Borrower) Usha Sharma (Co-Borrower)	All Piece and Parcel of Duplex/Unit No. 1, area admeasuring 832 Sq. Ft. (77.31 Sq. Mts.), constructed area 500 Sq. Ft. on ground floor and 500 Sq. Ft. on first floor, constructed on part of Div. Land Bearing Khasra No. 36/3, after mutation Khasra No. 36/3/1, of Mouza Maharajpur, N.B. 661, P.H.N. 28/32, at Venkatesh Vihar, Sharda Chowk, Madan Mahal Ward, Tehsil and District Jabalpur, alongwith Construction thereon Present and Future both; and Bounded as: North By: Satya Sai Temple South By: Common Passage East By: Side Road West By: Duplex/Unit No. 2	14-05-2021 Rs. 48,45,127/-	20-10-2021				
2.	(Loan Account No. LNMEJAB000026258 of our Jabalpur Branch) Shri Ram Jankalyan Shiksha Samiti (Borrower) Tarkeshwar Sen, Umabharti Sen, Dileep Sen, Ashok Kumar Sen, Sital Sen (Co-Borrower)	All Piece and Parcel of Freehold Land situated at Mouza Belkheda, P.H.N. 12, Part of Khasra No. 327, after mutation new Diverted Khasra No. 327/2, Revenue Circle, Pipariyakala, Tehsil Shahpura, District Jabalpur, Madhya Pradesh, total area 0.200 hectare, alongwith Construction thereon Present and Future both; and Bounded as: North By: Other Owner and Property of Seller South By: Property of Smt. Ramwati Bagaira East By: Road under Prime Minister Scheme West By: Remaining portion of Property of Seller	14-05-2021 Rs. 27,04,107/-	20-10-2021				
3.	of our Jabalpur Branch) Rajesh Jauhari (Borrower) Abha Jauhari (Co-Borrower)	All Piece and Parcel of Shop No. 17, on basement, constructed on Plot No. 112/7, House Bearing Corporation No. 773, New No. 782, Block No. 48, area admeasuring 165 Sq. Ft., out of area 4734 Sq. Ft., situated at Sunarhai, Motilal Nehru Ward, Tehsil and District Jabalpur, alongwith Construction thereon Present and Future both.	17-05-2021 Rs. 24,72,095/-	20-10-2021				
4.	of our Narsinghpur Branch) Vipin Nema (Borrower)	All Piece and Parcel of land and building situated at Mauza Kandeli, N. B. No. 36, P.C. No. 17/42, Ward No. 10, Shivaji Ward, House No. 343, admeasuring 675.5 Sq. Ft. i.e., 62.76 Sq. Mts., Revenue Circle, Tehsil Narshingpura, Madhya Pradesh, alongwith Construction thereon Present and Future both; and Bounded as: East By: Road West By: Property of Santosh Razak North By: Road South By: Property of Mangal Razak	24-05-2021 Rs. 32,85,285/-	20-10-2021				
5.	(Loan Account No.LNMEHOS000024869 of our Indore Branch) Aashirwad Tractors (Borrower) Rama Meena, Dwarka Prasad Meena, (Co-Borrower)	All Piece and Parcel of Plot No. 59 (Area admeasuring 875 Sq. Ft. i.e., 81.31 Sq. Mts.), situated at Fefartal, Halka No. 15/24, at Khasra No. 17/7, Ashirwad Nagar, Hoshangabad, Madhya Pradesh, along with Construction thereon Present and Future both; and Bounded as: East By: 12 Feet Road of the Colony West By: Plot No. 54 and 55 North By: Plot owned by Sh. Ashok Kumar Tumram South By: Plot No. 60 owned by Sh. Shankar Lal Chaurasiya	14-07-2021 Rs. 21,64,024/-	21-10-2021				
6.	(Loan Account No.LNMENSR000033982 of our Indore Branch) Ram Kumar Kourav (Borrower) Neelesh, Pushpa Bai, Archana Kourav (Co-Borrower)	All Piece and Parcel of property being Land/Plot/Unit/ House No. 232 (Area admeasuring 3000 Sq. Ft.), N.B. No. 50, P.H No. 17/40, Revenue Circle Kareli, Moza Mahatma Gandhi Ward, Tehsil Kareli, District Narsinghpura, Madhya Pradesh — 451225, along with Construction thereon Present and Future both.	14-07-2021 Rs. 21,49,662/-	20-10-2021				
L	Place : Madhya Pradesh Date : 23/10/2021 Sd/- (Authorised Officer) For Capri Global Capital Limited (CGCL)							



CIN: L67100MH1995PLC093797

Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604 Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

PUBLIC NOTICE OF AUCTION OF GOLD ORNAMENTS

Notice is hereby given to the general public that, due to non-regularization of gold loan accounts by the Borrowers in respect of Gold Loan Account numbers from, GL15042301, GL15204363, GL15215165, GL15369938, GL15316685, GL16920444, GL15370127, GL15756900, GL15375380, GL15388166, GL15283085, GL15315611, GL15108832, GL15218798, GL15231067, GL15237560, GL15264887, GL15271102, GL15300240, GL15389377, GL12519845, GL11504690, GL14716047, GL14357285, GL14364299 GL15505320 GL14375891 GL15579220 GL14459955 GL14566791 GL15693058 GL14641080 GL15157481 GL15373093 GL14667158 GL14687392 GL14836913, GL14884951, GL14885967, GL14930124, GL14945200, GL14945206, GL14971322, GL14972420, GL149737774, GL14973815, GL14984559 GL14986913, GL16077868, GL14999570, GL15009433, GL15010230, GL15020373, GL15020740, GL15026762, GL16259116, GL15118199, GL16113027, GL15472521, GL15479177, GL15570561, GL15429522, GL1653515, GL15747724, GL15806362, GL16025936, GL15461118, GL15472281, GL15571440, GL15782057, GL15791285, GL1589555, GL15955101, GL16032445, GL16034457, GL15503681, GL15617861, GL15729428, GL15800349, GL15871180, GL15920975, GL16034385, GL15600004, GL14406707, GL13357062, GL12265658, GL13993167, GL12274021, GL12307993, GL14164306, GL13771160, GL12462334, GL15094502, GL15977422, GL12482302, GL14856673, GL12555936, GL15521250, GL15822670, GL12653746, GL15678437, GL15857074, GL15555936, GL15521250, GL156104474, GL17994659, GL161704683, GL16170683, GL16198103, GL16254576, GL16258623, GL16285851, GL16333201, GL16351816, GL16181415, GL18000268, GL16209840, GL16297356, GL16307365, GL16344455, GL12631421, GL16043261, GL14607667, GL12634825, GL14039714, GL12647056, GL15400099, GL15548786, GL13961084 GL1029/1306, GL1630/1306, GL16344456, GL16361421, GL16043261, GL160407667, GL12034826, GL161403676, GL16361261 GL12721826, GL16178651, GL12778526, GL16139167, GL16166215, GL161645126, GL16154214, GL16177861, GL16190146, GL16273108, GL17412688, GL16312281, GL16317746, GL16331627, GL163614243, GL163614243, GL16361447, GL16361478, GL18208217, GL16500077, GL16831797, GL18148229, GL16460251, GL18048423, GL1646147, GL1646147, GL16461478, GL16461478, GL16461474, GL GL16471575, GL18207439, GL16611047, GL18267833, GL16616375, GL18183944, GL16657747, GL18159652, GL16760759, GL16372030, GL16962356, GL17019279, GL17211694, GL17222454, GL15158089, GL15181515, GL15297085, GL15600189, GL15632469, GL16198349, GL15655572, GL15701887, GL15778279, GL15789831, GL16483672, GL16526636, GL16588379, GL18097901, GL16718561, GL16720120, GL16724264, GL17293092, GL15154919, GL15856754, GL15876076, GL15891222, GL1682672, GL1682672, GL1682672, GL1682672, GL168272012, GL1672824, GL16724204, GL1724204, GL172420 GL13517070, GL13575947, GL13580925, GL15065969, GL16171697, GL13601622, GL13610896, GL13615180, GL16208331, GL13625947, GL18162347, GL13643941, GL14712296, GL13647056, GL15252870, GL13653484, GL15377526, GL14564466, GL13728103, GL15470184, GL13731833, GL16045852, GL13741068, GL15119433, GL13766866, GL14647875, GL13769601, GL15368525, GL13784690, GL15911355, GL13797496, GL15121682, GL14650918, GL14920017, GL13906771, GL15302143, GL13920080, GL14928391, GL18162492, GL13936041, GL17987451, GL148038201, GL13952001, GL13957026, GL15641777, GL13970790, GL16276791, GL33957026, GL15539816, GL14033755, GL14056506, GL16046042, GL14060341, GL15083833, GL15993771, GL14064528, GL14074112, GL18200982, GL14107117, GL15868355, GL14107644, GL15958441, GL14123865, GL14981608, GL14152065, GL15665391, GL14169642, GL16634682, GL14173217, GL16426650, GL16354853, GL14279624, GL14191584, GL14216729, GL15775279, GL14273976, GL14340125, GL14364967, GL16105322, GL14365416, GL14378776, GL18052554, GL14381697, GL14943664, GL18021671, GL14476388, GL14448703, GL14472985, GL14500564, GL14529446, GL15820032, GL14544191, GL14599220, GL14629486, GL18167166, GL14675771, GL14695370, GL14695598, GL14697444, GL14701753, GL14709950, GL14714696, GL14714661, GL14745016, GL17963323, GL14758740, GL146968, GL14714696, GL147146016, GL17963323, GL14758740, GL14714691, GL14836449, GL14821345, GL14758740, GL14953369, GL14714697, GL14836449, GL14857013, GL14953369, GL147145016, GL17963323, GL15040060, GL15152534, GL14953369, GL18147153, GL14968854, GL15007084, GL15409939, GL16669133, GL16704777, GL17073909, GL17213837, GL15040060, GL15152534, GL15652125, GL15447368, GL15467358, GL15698806, GL156764900, GL15717337, GL15764999, GL15771320, GL15958180, GL16040035, GL16049368 GL16656700, GL16372321, GL16393399, GL16399099, GL16462912, GL17968160, GL16471680, GL16485018, GL16491523, GL16512538, GL16516606, GL16588547 GL16595058, GL16653009, GL16692385, GL167574282, GL16757920, GL167979338, GL16804514, GL17254157, GL16827434, GL16832291, GL17341614, GL16868061, GL16872264, GL17291581, GL16872634, GL16883192, GL16884870, GL17049152, GL17087990, GL17098257, GL17277912, GL17187341, GL17408223, GL17216649, GL17224922, GL17227461, GL17237937, GL17241303, GL17245449, GL17249239, GL17249374, GL17250507, GL17254162, GL17257282, GL17258378, GL17270035, GL17270151, GL17272872, GL17273496, GL17273925, GL17273925, GL17284590, GL1728537, GL1728893, GL17308202, GL17309783 GL17318768, GL17319518, GL17323549, GL17329755, GL17336433, GL17338582, GL17338997, GL17344597, GL17344597, GL17353869, GL1735869, GL17356869, GL1756869, GL1756869, GL1756869, GL1756869, GL1756869, GL1756869, GL1756869, GL1756869, GL1756 GL17360578, GL17360979, GL17362142, GL17362726, GL17362833, GL17363091, GL17365596, GL17366706, GL17367525, GL17368200, GL17372093, GL17373694 GL17374267, GL17374314, GL17376355, GL17377882, GL17381437, GL17381949, GL17385944, GL17387603, GL17391832, GL17402677, GL17403179, GL17404393, GL17405617, GL17405617, GL17405643, GL17407762, GL17408226, GL17411050, GL17412296, GL17414369, GL17414858, GL17432307, GL17433126, GL17439793, GL17440445, GL17443239, GL1744325, GL17444527, GL17448902, GL17449533, GL17449533, GL17451899, GL17458457, GL17459185, GL17461819, GL17463767, GL15574151, GL15621855, GL15805094, GL16183449, GL17076098, GL15034097, GL16487029, GL18160071, GL14397498, GL14714430

We are conducting an auction of the pledged gold jewellery on or after 26.10.2021 at 10.00 A.M. the respective talukas / centres from where such loan was availed. Address of such talukas / centres have been duly notified at our website www.iifl.com. All defaulting borrowers had been duly intimated about the auction through Auction Notice. Details of defaulting borrowers' pledged gold jewellery and other details have been displayed at the respective talukas / centres. Auction process has been displayed at respective branches. The defaulter borrowers have an option to repay the entire dues including all applicable charges and close their loan accounts even after publication of this notice but in any case till the date of auction as mentioned herein. However, the defaulter loans which are closed on or after this publication 23.10.2021, will have to bear the proportionate publication charge

Bidders are invited to inspect the gold jewellery on 25.10.2021 and to submit their bid. The gold is being auctioned on "AS IS WHAT IS" basis. Auction shall be conducted in

accordance with process and terms and conditions laid down by the Company. If the Auction in respect of defaulter accounts is not completed on the Auction Day, the pledged gold ornaments will be auctioned off on subsequent day/s without further notice. Terms and conditions for auction may be modified by the Company at its sole discretion. Participation in the auction and acceptance of bids will be at the sole discretion of the company IIFL Finance Limited has the authority to remove any of the accounts from the auction list without prior information and it has the right to cancel / change the auction date

without prior intimation Date: 23.10.2021

The Supreme Industries Limited

CIN: L35920MH1942PLC003554

Regd. Office: 612, Raheja Chambers, Nariman Point, Mumbai - 400021 Website: www.supreme.co.in | E-mail: investor@supreme.co.in | Tel. 91 22 22851656; Fax: 91 22 22851657

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half year ended 30th Sentember 2021

	Extract or onaudited consolidated in	laliviai mes	uita idi tile t	qualiti allu	man year e	ilucu Jolii G	epteniber 2021		
	(Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulation	ulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)							
1		Quarter ended Half year ended Previous Year e							
	Particulars	30.09.2021 (Unaudited)	30.06.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)		
١	Total Income	193263	134640	137779	327903	243365	637396		
١	Net Profit before tax	29618	21312	22765	50930	28282	121222		
١	Net Profit after tax	22871	17016	17495	39887	21548	97814		
1	Total Comprehensive income	22837	16983	17433	39820	21423	97659		
1	Earning per Share - Basic & Diluted (Rs.)	18.00	13.40	13.77	31.40	16.96	77.00		

Place: Mumbai

Dated: 22nd October, 2021.

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Results are available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.supreme.co.in.
- 2 The Board of Directors has declared the interim dividend @ 300 % i.e. Rs. 6 per share of Rs. 2 each (FV), for the financial year 2021-22. The Dividend will be paid to those shareholders whose names stand on the Register of Members as on the Record date i.e. 1st November, 2021.

3 Key Standalone Financial Information:

(₹ In lakins)								
	Quarter ended			Half yea	ır ended	Previous Year ended		
Particulars	30.09.2021 (Unaudited)	30.06.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)		
Total Income	196879	134640	138210	331519	243795	638546		
Net Profit before tax	29340	16807	20537	46147	26421	107791		
Net Profit after tax	22593	12511	15359	35104	19687	80138		
Total Comprehensive income	22559	12478	15297	35037	19562	80008		
Earning per Share - Basic & Diluted (Rs.)	17.79	9.85	12.09	27.64	15.50	63.09		

4 The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 22nd October, 2021

For The Supreme Industries Ltd.,

B L Taparia

(DIN No. 00112438)

Chairman

For any other details please contact: IIFL FINANCE LTD., Lohia Jain IT park Plot No. 1, Servey No. 150, Chandni Chowk, Paud Road, Kothrud, Pune -411 038 • Contact: 90285 72519

GL17637135.GL17333122.GL14039736.GL18445925.GL18266174.GL17114704.

Authorised Officer (IIFL Finance Ltd.)

संक्षेप में

महिंद्रा हॉलिडेज को 60 करोड रुपये का लाभ

महिंद्रा हॉलिडेज ऐंड रिसॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में दो गुना से अधिक बढ़कर 59.76 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि गर्मी की छुट्टियों के मौसम और घरेलू अवकाश यात्रा में तेजी से उसका लाभ बढा है। महिंद्रा हॉलिडेज ऐंड रिसॉटर्स इंडिया लिमिटेड (एमएचआरआईएल) ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 28.77 करोड़ रुपये था।

फेडरल बैंक का शुद्ध लाभ ५५ फीसदी बढ़ा

निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक ने शुक्रवार को कहा कि 30 सितंबर को समाप्त हुई चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध मुनाफा लगभग 55 प्रतिशत बढ़कर 488 करोड़ रुपये हो गया। बैंक ने एक साल पहले की समान अवधि में 315.70 करोड रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था। फेडरल बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि वर्ष 2021-22 की जुलाई-सितंबर की अवधि के दौरान उसकी कुल आय (एकीकृत) घटकर 4,013.46 करोड़ रुपये रह गई।

मैक्रोटेक बड़ी रकम जुटाने की तैयारी में

रियल्टी कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड ने भविष्य में वृद्धि के लिए प्रतिभृतियों के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बनाई है और डेटा सेंटर तथा औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए वैश्विक निवेशकों के साथ मिलकर एक वित्त पोषण मंच स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। लोढ़ा ब्रांड के तहत अपनी संपत्तियों का विपणन करने वाली मुंबई की मैक्रोटेक डेवलपर्स इस साल अप्रैल में आईपीओ के माध्यम से 2,500 करोड़ रुपये जुटाने के बाद

े केयर्न चाहे शुल्क में रियायत

केयर्न ऑयल ऐंड गैस को पुराने कुओं से बढ़े हुए उत्पादन पर शुल्क में कटौती की आस

त्वेष मिश्रा

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर

यर्न ऑयल ऐंड गैस चाहती है कि सरकार मौजूदा 70 फीसदी लेवी को घटाकर 40 फीसदी करते हुए तेल एवं गैस उद्योग में पुराने कुओं से उत्पादन बढ़ाने की तकनीक को प्रोत्साहित करे। अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांत समूह की इकाई ने उम्मीद जताई है कि सरकार यदि उत्पादन वृद्धि (ईआर) नीति में बदलाव को मंजूरी देती है तो उसके निवेश पर करीब 4 अरब डॉलर की वसुली हो सकती है।

केयर्न ऑयल ऐंड गैस के डिप्टी सीईओ प्रचूर शाह ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'मौजूदा योगदान राजस्व का करीब 70 फीसदी (ईआर की तैनाती के बाद तेल एवं गैस उत्पादन से) है क्योंकि लेवी ने कई परियोजनाओं को अव्यवहार्य बना दिया है। हम चाहते हैं कि इसे किसी प्रकार 40 फीसदी के स्तर तक घटाया जाए। हमारे पास कई परियोजनाएं तैयार हैं जो इन मुद्दों के निपटने के साथ ही निवेश कर सकती हैं।' शाह इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए उद्योग प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।

हालांकि ईआर नीति की मंशा देश में उन पुराने कुओं से तेल एवं गैस का उत्पादन बढ़ाना है जहां अपेक्षित उत्पादन नहीं हो पा रहा है। भारत में

तेल एवं गैस का उत्पादन घट रहा है और उत्खनन कंपनियां राजकोषीय राहत के लिए लॉबिइंग कर रही हैं। ईआर नीति के तहत सरकार ने उत्पादन वृद्धि (आईआर) तकनीक एवं गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन (यएचसी) उत्पादन तरीकों पर प्रोत्साहन की पेशकश की है।

शाह ने कहा, 'हमने सुझाव दिया है कि नेल्प-पूर्व ब्लॉकों के संबंध में ईआर नीति में मामूली बदलाव करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि मंजूरी अब अंतिम चरण में है।' नेल्प-पर्व ब्लॉकों का आवंटन नामांकन प्रणाली के तहत किया गया था और देश के तेल एवं गैस उत्पादन में उसका उल्लेखनीय योगदान रहा है। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या

इंडियन ऑयल की रिफाइनरी पूरी क्षमता पर चलेंगी

फीसदी करे केयर्न ऑयल ऐंड गैस को ४ अरब डॉलर के निवेश की वसूली होने की उम्मीद (एमबीए) ऐसे ही क्षेत्र हैं जहां केयर्न ऑयल ऐंड गैस ने सरकारी तेल एवं

कंपनी चाहती है

कि सरकार पुराने

कुओं से उत्पादन

प्रोत्साहित करने

के लिए शुल्क को

मौजूदा 70 फीसदी

से घटाकर 40

गैस उत्खनन कंपनी ओएनजीसी के साथ साझेदारी की है। देश के कुल कच्चे तेल के उत्पादन में इस ब्लॉक का योगदान करीब 30 फीसदी है। उद्योगपितयों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश घरेलू तेल एवं गैस ब्लॉक से उत्पादन बढ़ाना चाहती है न कि राजस्व। शाह ने कहा, 'राजस्थान ब्लॉक में

केयर्न ऑयल ऐंड गैस द्वारा काम शुरू करने के बाद से अब तक करीब 12 अरब डॉलर का निवेश किया गया है। इसमें उत्खनन एवं उत्पादन दोनों मोर्चों पर किया गया निवेश शामिल हैं। यदि ये मामूली बदलाव कर दिए जाते हैं और कर ढांचे को निर्धारित

कर दिया जाता है तो केयर्न ऑयल ऐंड गैस को तत्काल 3 से 4 अरब डज्ञॅलर की वसूली हो जाएगी। इस रकम का निवेश तेल एवं गैस उत्पादन की नई परियोजनाओं में किया जा सकता है।'

मौजूदा नीति की खामियों का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा, 'हम बढ़े हुए तेल उत्पादन को व्यवहार्य बनाने के लिए कह रहे हैं। हम लेवी ढांचे को सही बनाने के तरीके पर सरकार के साथ काम कर रहे हैं।'

ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) बोली दौर में भी केयर्न ऑयल ऐंड गैस सबसे बडी प्रतिभागी थी। उसने इसके तीन दौर की बोलियों के बाद 51 ब्लॉक हासिल किए। लेकिन कोविड वैश्विक महामारी के कारण इन ब्लॉकों में उत्पादन संबंधी गतिविधियों को झटका लगा। कुछ उत्खनन कंपनियां भी न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) में रियायत दिए जाने की मांग कर रही हैं। ओएलएपी ब्लॉकों से उत्पादन शुरू करने के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई है। एक सवाल के जवाब में शाह ने कहा, 'केयर्न ऑयल ऐंड गैस ने एमडब्ल्यूपी प्रतिबद्धता में कमी करने की मांग कभी नहीं की है। हमने केवल कोविड संबंधी व्यवधान के मद्देनजर उत्खनन चरण के लिए समय-सीमा में विस्तार के लिए

गूगल के सदस्यता शुल्क में कटौती अच्छा कदमः उद्योग

नेहा अलावधी नई दिल्ली, 22 अक्टूबर

गुगल द्वारा गुगल प्ले स्टोर पर सदस्यता शुल्क आधा किए जाने के फैसले का उद्योग ने बड़े स्तर पर स्वागत किया है, लेकिन एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) ने कहा है कि यह एक ध्यान भटकाने वाली रणनीति है।

भारत में डिजिटल स्टार्टअप के थिंक टैंक एडीआईएफ के कार्यकारी निदेशक कुरुविला जॉर्ज ने कहा कि यह तथ्य कि गुगल कीमतों को एकतरफा रूप से घोषित करने और निर्धारित करने में सक्षम है, जैसा कि इस घोषणा से भी स्पष्ट होता है, इस मसले की मुख्य बात है। डेवलपर्स जो चीज मांग रहे हैं, वह है निष्पक्षता, न कि घटाए गए कमीशन प्रतिशत के रूप में परोपकार। प्रतिशत की बात कभी नहीं रही है। मूल्य निर्धारण को बाजार की ताकतों पर छोड दिया जाना चाहिए। जब ??तक गुगल एकतरफा कीमतों को निर्धारित कर रहा है और लोगों के पास विकल्प नहीं हैं, तब तक यह 'लगान' भी है – चाहे वह 30 प्रतिशत हो, 15 प्रतिशत हो या भले ही दो प्रतिशत भी, प्रतिशत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि यहां दिशा और ध्यान भटकाना चल रहा है।



गुगल ने गुरुवार को कहा था कि 1 जनवरी, 2022 से वह गुगल प्ले स्टोर पर सभी सदस्यताओं के लिए सेवा शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर देगा और सदस्यता की पेशकश करने वाले डेवलपरों के लिए इसका मतलब यह है कि पहले साल का सदस्यता शुल्क कम होकर आधा रह जाएगा।

इंडस ओएस के सह-संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी राकेश देशमुख ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है जो डेवलपरों के लिए अनुकूल है। यहां समझने की दिलचस्प बात यह है कि ये एक दिशा वाले ऐसे शब्द हैं, जिन्हें गूगल द्वारा किसी भी दिन बदला जा सकता है। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां डेवलपरों और उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सच्ची प्रतिस्पर्धा हो और बाजार सही कमीशन निर्धारित करे। भले ही यह एक अच्छा अस्थायी निर्णय है, लेकिन दीर्घकाल में इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है।

शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हुई।

On line e-tenders are invited from manufacturers (as per details given in tender documents) for lime to our Anoopshahr, Bagpat, Belrayan, Gajraula, Kaimganj, Morna, Nanauta, Nanpara, Najibabad, Puranpur, Ramala, Satha, Budaun, Sampurnanagar, Tilhar, Powayan. Semikhera, Mehmudabad, Budaun & Bilaspur Cooperative Sugar Factories of UP. The e-tender documents with detailed specifications, terms and conditions etc. can be downloaded from e-tender portal http://letender.up.nic.in.la (Rederation versible twww.upsugarfed.org

The Federation reserves the right to cancel any or all bids/annul e-bidding process without assigning any reason to & decision of Federation will be final & binding.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही/ छमाही के अ-लेखा

परीक्षित (समीक्षित) वित्तीय परिणामों पर विचार करने एवं

उनको अनुमोदित करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक

बुधवार, दिनांक 27 अक्तूबर 2021 को चेन्नै में आयोजित

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (O&M)
MPPGCL COLONY NO.3, GANDHISAGAR

DIST:- MANDSAUR (MP) 458771

PHONE: 07427-237212

EMAIL: acegsps@rediffmail.com,seonmgsps@gmail.com

NOTICE INVITING TENDER

"Through e-tendering process only

MPPGCL invites e-tender for eligible bidders through e-tendering process

for Providing 06 Nos. Un-skilled labours for assistance in O&M work of water supply at 5x23MW Gandhisagar Hydel Power Station for three

Estimated Cost:- Rs.29.735 Lacs. EMD:-Rs.74.400/-. Tender Cost:

1000/-. Due date of online submission 27.10.2021 upto 17:00hrs. Due

Detailed NIT & bidding documents are available on GoMP website https://mptenders.gov.in_as_MPPGCL_TENDER_No: 2021_MPPGC

153017 1. The MPPGCL reserves the right to accept /rejection of any

For further details of amendment/extensions/corrigendum etc. please visit

website https://mptenders.gov.in regularly. No separate information shall

Superintending Engineer (O&M), MPPGCL, Gandhisagar

date of online Opening 29.10.2021 on 18:00 hrs onwards

or all tenders without assigning any reason thereof.

pe published in print media for instant tender

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्येपालक अधिकारी

होने की एतहवारा सचना दी जाती है।

दिनांक : 21.10.2021

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) को

उम्मीद है कि ईंधन की मांग में तेजी लौटने से एक तिमाही के भीतर रिफाइनरी 100 फीसदी क्षमता के साथ चलने लगेंगी। आईओसी के चेयरमैन एमएम

देश की सबसे बडी तेल विपणन कंपनी

वैद्य ने सेरावीक द्वारा आयोजित इंडिया एनर्जी फोरम में कहा कि पेट्रोल और रसोई गैस (एलपीजी) की मांग पहले ही कोविड से पहले के स्तर से अधिक है और डीजल की

खपत सामान्य स्थिति में वापस आ रही है। आईओसी की रिफाइनरियां सितंबर में 82 फीसदी क्षमता से संचालित हुईं और इस महीने 90 फीसदी से ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि एक विनाशकारी महामारी के बाद भारत में आर्थिक गतिविधियों के पुनरुद्धार के साथ ऊर्जा की मांग फिर से बढ़ रही है। पिछले साल मार्च के अंत में देशव्यापी लॉकडाउन के चलते भारत की ऊर्जा मांग घटकर आधी हो गई थी, लेकिन प्रतिबंधों में ढील के साथ आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है।

प्रधान कार्यालय, टी.डी.एस.सेल, वित्त विभाग, स्टार हाउस, सी -5, "जी ब्लॉक", बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051 ई-मेल: <u>Ĥo.TDS@b</u>

निविदा सूचना

केंद्रीकृत वेब आधारित ई-टीडीएस समाधान (एंड टू एंड) के लिए दो बोली प्रणाली में पात्र परामर्शदाताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । विस्तृत योग्यता मानदंड और निविदा दस्तावेज बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर उपलब्ध हैं। महरबंद निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि 15.11.2021 को अपराह्न 3 बजे तक है । 23 अक्टूबर 2021



Date: 22nd October, 2021

नाम

इंदौर

थानः मुम्बई नांकः 22 अक्टूबर, 2021

मध्यांचल ग्रामीण बैंक

दूरभाष क्र. 07582-236277, ई-मेल : Account@mgbank.co.in

हमारे बैंक के 13 जिलों सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, अशोक नगर, गुना, शिवपुरी , सतना , रीवा, सीधी एवं सिंगरौली की सभी शाखाओं एवं कार्यालयों हेतु हार्डवेयर उपकरण सर्वर, प्रिंटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, (कियोस्क पासबुक प्रिंटर-वैकल्पिक) के वार्षिक रखरखाव अनुबंध/AMC हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं । इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाईट www.mgbank.co.in पर उपलब्ध है । जिसे की इच्छक निविदाकर्ता डाउनलोड कर पूर्णतः भरकर सीलबंद निविदा के साथ वेबसाईट में वर्णित पते पर प्रस्तुत कर सकते हैं । निविदा आमंत्रण से सम्बंधित किसी भी परिवर्तन/ निरस्तीकरण की सुचना वेबसाईट पर दी जावेगी । निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 05.11.2021 को सायं 05:00 बजे तक है।

PARVATI SWEETNERS AND POWER LIMITED

CIN: L15421MP2011PLC027287 | GSTIN: 23AAGCP3350D1ZW Registered Office: Hall No. 2. Shopping Complex, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk, Bhopal· 462003 (MP), Ph. No.: 0755-4236666, 4009254 Email: info@parvatisweetners.com

NOTICE

NOTICE pursuant to Regulation 29(1) (a) read with Regulation 47(1) (a) of SEBI (LODR Regulations, 2015 is hereby given that the Meeting of the Board of directors of th pany will be held on Friday, the 29th October, 2021 at 03:30 P.M. at the Registere Office of the Company to consider and approve the Standalone Un-Audited Quarterly an Half yearly Financial Results for the Quarter and Half Year ended on 30th Septem 2021, along with other routine business.

For further details, please refer the web link https://narvatisweetners.co.in/ & https://www.bseindia.com/stock-share_price/parvati weetners-and-power-ltd/parvati/541347

CÁPRI GLOBAL

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

CIN No.: U65990MH2006PLC161153

पंजीकत कार्यालय: 502, टॉवर-ए, पेनिनसला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग

. तद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी नीचे उल्लेखित स्थानों पर स्थित शाखाओं को बंद करने जा रही है:

यूनिट नं. 110 एवं 111, पहली मंजिल

मेगापोलिस स्क्वायर, 579, एम.जी. रोड.

दसरी मंजिल, संचेती एवेन्य, 3125, सेक्टर

ई, सुदामा नगर, गोपुर स्क्वायर के निकट

कार्यालय नं. 10, दूसरी मंजिल, गिरीराज

स्वाक्वायर दवा बाजार के निकट, उज्जैन-

कार्यालय नं. 8, दूसरी मंजिल, गुरुदत्त

एम्पायर, 135 न्यू रोड, रतलाम-457001

रिंग रोड, इंदौर-452009, मध्य प्रदेश

हेरिटेज, माधव क्लब रोड, तीन बत्ती

456010, मध्य प्रदेश

इंदौर-452001, मध्य प्रदेश

पारले, मुम्बई-400013 वेबसाइटः <u>www.caprihomeloans.com</u> दूरभाष सं: +91 22 40888100 फैक्स सं: +91 22 40888160

For Parvati Sweetners & Power Limited

की तारीख

25.01.2022

कृते कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

POONAM CHOUKSEY MANAGING DIRECTOR DIN: 02110270

उद्देश्य

नगर के अंदर

नए स्थान पर

स्थानांतरण

नगर के अंदर

नए स्थान पर

नगर के अंदर

स्थानांतरण

नए स्थान पर स्थानांतरण

हस्ता/ (हरीश अग्रवाल)

बिज़नेस स्टैंडर्ड

"SAVE ELECTRICITY"

निजनेय म्हेंदर्ह पादवेट लिमिटिड के लिए प्रकाशक एवं मद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा दैनिक भास्कर, प्लॉट नं. 10 व 11, सेक्टर बी, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल, म.प्र. 462023 से मुद्धित एवं C/o. अशोक कुमार जैन, शॉप नंबर 1, पटेल मार्केट, संगम टॉकीज के समीप भोपाल -४६२००१ से प्रकाशित

> आरएनआई न० WBHIN/2008/24333 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स- 033-22101599 सबरिक्रप्शन और सर्कुलेशन के लिए कृपया संपर्क करें.. सुश्री मानसी सिंह

हेड कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टेंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013 ई मेल.. subs_bs@bsmail.in या ५७५७५ पर एसएमएस करें REACHBS

डिसक्लेमर.. विजनेस स्टेंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। विजनेस स्टेंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से पूरे परिस्थितयों के प्रवास तथन जाता है। विद्यालय स्टेडिय एवर्षिय हैं। कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टी के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा तित विद्यापन स्टाइड पाड़े जिल्ह्यारी जा तिता है। पाठकों से स्वयं कार्य तिता जायता की जाती है। बिजनेस स्टेंडर्ड के सभी विज्ञापन सर्द्यामा में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टेंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी पकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। सवायत (यन्त्र) में अपनेट को त्यांत सवायत (प्राव्या) में 0 विजनेस स्टेंडर्ड प्रा० लिए का सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। विजनेस स्टेंडर्ड प्रा० लिए से लिखित अनुमति लिए बगैर् सुमाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामुग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकास द्वारा इस तरह का निषेद्ध एवं अनिधकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

कोई हवाई अधिभार नहीं

बायोकॉन का शुद्ध लाभ 11 फीसदी बढ़ा

बीएस संवाददाता मुंबई, 22 अक्टूबर

जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बायोकॉन का समेकित शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 11 फीसदी बढकर 188 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी ने 169 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया था। कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसका समेकित राजस्व 10 फीसदी बढ़कर 1,945 करोड़ रुपये हो गया। अनुसंधान सेवाओं और बायोसिमिलर कारोबार में बेहतर प्रदर्शन से कंपनी के वित्तीय नतीजे को बल मिला। तिमाही के दौरान कंपनी के अनुसंधान सेवा और बायोसिमिलर कारोबार में क्रमश: 17 फीसदी और 10 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। तिमाही के दौरान कंपनी का एबिटा 35 फीसदी बढ़कर 551 करोड़ रुपये हो गया और कर पूर्व लाभ 27 फीसदी बढ़कर 276 करोड़

बायोकॉन की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण

मजमदार शॉ ने कहा. बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने इस तिमाही के दौरान रणनीतिक पहल की है जो बायोसिमिलर कारोबार में भविष्य की वृद्धि को रफ्तार देगी और शेयरधारकों को दीर्घावधि मुल्य प्रदान करेगी। आपस

में बदलने योग्य पहली बायोसिमिलर दवा के तौर पर सेमग्ली को यूएसएफडीए से मिली मंजूरी बायोकॉन और वियाट्रिस दोनों के लिए एक उल्लेखनीय पडाव साबित होगी। इससे हमारी इंसलिन ग्लार्जिन तक ग्राहकों की पहंच में विस्तार होगा।' बायोकॉन बायोलॉजिक्स और सीरम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंसेज

(एसआईएलएस) ने एक रणनीतिक गठजोड किया जिससे बायोकॉन बायोलॉजिक्स के लिए हल्की परिसंपत्ति वाले मॉडल को अपनाने और टीका क्षेत्र में उतरने में मदद मिली। यह गठबंधन बायोकॉन बायोलॉजिक्स को अगले 15 साल तक सालाना 10 करोड़ ख़ुराक की आपूर्ति करेगी।

येस बैंक का शुद्ध लाभ बढ़ा

निजी क्षेत्र के ऋणदाता येस बैंक का शद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 74.3 फीसदी बढ़कर 225 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के दौरान गैर-ब्याज आय बढ़ने और प्रावधान मद की रकम में नरमी से मुनाफे को बल मिला। कंपनी ने एक साल पहले की समान अवधि में 129 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। क्रमिक आधार पर शुद्ध लाभ 9 फीसदी बढकर 207 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के दौरान बैंक की शुद्ध ब्याज

> आय (एनआईआई) 23.4 फीसदी बढकर 2.512 करोड रुपये हो गई। हालांकि क्रमिक आधार पर एनआईआई 7.9 फीसदी बढकर 1,402 करोड रुपये हो गई। तिमाही के दौरान शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) घटकर 2.2 फीसदी रह गया जो एक साल

पहले 3.1 फीसदी रहा था। हालांकि क्रमिक आधार पर शुद्ध ब्याज मार्जिन में बढ़त दर्ज की गई। तिमाही के दौरान बैंक की गैर-ब्याज आय 30.2 फीसदी बढ़कर 778 करोड़ रुपये हो गई जो एक साल पहले की समान अवधि में 597 करोड रुपये रही थी। क्रमिक आधार पर इसमें 10.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई पर बैंक का शेयर आज 4.12 फीसदी बढकर 13.73 रुपये पर बंद हुआ। तिमाही के दौरान बैंक का प्रावधान 65 फीसदी घटकर 377 करोड़ रुपये रह गया जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,078 करोड़ रुपये रहा था। इस दौरान प्रावधान कवरेज अनुपात सुधरकर 78.9 फीसदी हो गया जो एक साल पहले 79.7 फीसदी रहा था। इस दौरान शुद्ध एनपीए अनुपात बढ़कर 5.5 फीसदी हो गया जो एक साल पहले 4.7 फीसदी रहा था। हालांकि शुद्ध एनपीए में गिरावट दर्ज की गई। पूंजी पर्याप्तता अनुपात सुधरकर 17.4 फीसदी हो

एचडीएफसी लाइफ का शुद्ध लाभ घटा

निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का एकल शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 16 फीसदी बढकर 274.16 करोड रुपये हो गया जो एक साल पहले की समान अवधि में 326.09 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही के दौरान कंपनी ने मृत्य दावे के लिए भंडार में 60 करोड़ रुपये जोड़े और उसके पास 204 करोड़ रुपये का भंडार बचा रह गया। जीवन बीमा कंपनी ने 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मृत्यु दावा भंडार स्थापित किया। इसमें से 556 करोड़ रुपये बचे रह गए। तिमाही के दौरान कंपनी ने कुल 3,640 करोड़ रुपये मुल्य के करीब 2 लाख दावों का निपटान किया। तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध प्रीमियम 14 फीसदी बढ़कर 11,443.96 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले की समान अवधि में 10,045.44 करोड रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही में कंपनी का कुल वार्षिक प्रीमियम समतुल्य 23 फीसदी बढ़कर 4,112 करोड़ रुपये हो गया।

अदाणी पावर का ग्रीन ईंधन पर जोर

श्रेया जय और शाइन जैकब नई दिल्ली/ चेन्नई, 22 अक्टूबर

हाल में अपनी पेट्रोकेमिकल्स इकाई शुरू करने वाली कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज विभिन्न प्रकार के ग्रीन ईंधन की पेशकश करने की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी अपनी मौजूदा आपूर्ति शृंखला करेगी। इसके अलोवा ग्रीन ईंधन के उत्पादन एवं परिवहन के लिए कंपनी अपनी नवीकरणीय ऊर्जा इकाइयों का उपयोग करेगी।

अदाणी एंटरप्राइजेज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन उर्वरक का उत्पादन करने की योजना बना रही है। इनमें से हरेक ईंधन के लिए अदाणी अलग-अलग ग्राहक वर्ग तक पहुंचने की योजना बना रही है। इसके अलावा कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन उर्वरक के लिए सरकार की ओर से जारी

निविदाओं में भी भाग लेगी। अदाणी एंटरप्राइजेज इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज



कंपनी परिणाम

• कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन उर्वरक का उत्पादन करेगी

 10 फीसदी ब्लेंडेड मेथनॉल से वाणिज्यिक वाहनों को चलाने के लिए अशोक लीलैंड संग करार

(आरआईएल) को टक्कर देने की तैयारी कर रही है जिसकी पेट्रोकेमिकल्स कारोबार में उल्लेखनीय मौजूदगी है। हाल में उसने 75,000 करोड रुपये की अपनी निवेश योजना के साथ ग्रीन एनर्जी कारोबार में दस्तक देने की घोषणा की थी। इसी साल अगस्त में अदाणी ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदाणी पेट्रोकेमिकल्स की घोषणा की थी जो रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स. रसायन डकाइयां. हाइड्रोजन एवं संबंधित रसायन संयंत्र स्थापित करेगी।

ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में अपनी पायलट परियोजनाओं के पहले चरण में अदाणी ने वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड के साथ करार

किया है ताकि उसके चुनिंदा बेड़ों को ग्रीन मेथनॉल की आपूर्ति की जा सके। सूत्रों ने कहा कि अदाणी वीआरएल लॉजिस्टिक्स के साथ एक पायलट परियोजना शुरू करेगी जिसके पास अशोक लीलैंड के वाणिज्यिक वाहनों का सबसे बडा बेडा है। इसके तहत 250 वाहनों को 10 फीसदी ब्लेंडेड ग्रीन मेथनॉल पर चलाया जाएगा।

कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'वीआरएल के बेडे में करीब 250 वाणिज्यिक वाहनों को 10 फीसदी ग्रीन मेथनॉल पर चलाया जाएगा। इसके लिए आईसी इंजन में मामुली बदलाव करने की आवश्यकता होगी। इस योजना को वीआरएल द्वारा मंजूरी दे दी गई है और तैनाती जल्द शुरू हो

प्रौद्योगिकी अधिकारी एन श्रवणन ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'हम कई वैकल्पिक ईंधन पर विभिन्न साझेदारों के साथ काम कर रहे हैं सीएनजी/एलएनजी, मेथनॉल और हाइड्रोजन। हमारी नजर अगले दो-तीन साल में वैकल्पिक ईंधन क्षेत्र में वाणिज्यिक वाहनों का एक पूर्ण पोर्टफोलियो तैयार करने पर है।' अदाणी एंटरप्राइजेज के प्रवक्ता को भेजे गए ईमेल का खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया। अदाणी और आरआईएल ने

जाएगी।' अदाणी समह के साथ

करार के बारे में पूछे जाने पर

अशोक लीलैंड के मुख्य

ऐसे समय में यह पहल की है जब केंद्र सरकार मेथनॉल इकनॉमी की ओर कदम बढ़ाने के लिए नीति आयोग के जरिये एक रूपरेखा तैयार कर रही है। पिछले महीने जारी एक वर्किंग पेपर में कहा गया है कि हमारी रणनीति देश के आयात बिल को कम करना, उत्सर्जन में कटौती करना और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट को मेथनॉल में बदलना है।